



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 7) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 अक्तूबर 2013

सं0 22/नि0सि0(मुज0)—06—12/2006/1301—श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध उनके पदस्थापन अवधि में तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुख्य नहर वि0दू0—722.00 बायों पर दिनांक 22.9.11 को नहर बंध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1494 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0 04 दिनांक 4.1.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्र सं0—503 दिनांक 30.4.13 से आपसे कारण पृच्छा की गयी:—

तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के सम्पोषण मद में 16 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त था एवं उक्त आवंटन के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में नहर के मौसमी मजदुर हेतु रू0—1.97 लाख की स्वीकृति दी गयी थी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर बंध को काटने की सूचना स—समय कार्यरत मौसमी मजदूरों द्वारा दी जाती तो नहर कटाव जैसी दुभाग्यपूर्ण स्थिति को टाला जा सकता था।

उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि नहरों के रख-रखाव की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता की होती है। नहर का टूटान पाईपिंग के चलते हुआ।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है साथ ही निलंबन अवधि के विनियमन के बिन्दू पर अलग से कारण पृच्छा करने का निर्णय भी लिया गया:-

1. निन्दन वर्ष 2011-12
2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नागेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 7-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>